


(Review by Chief Secretary, Govt. of MP) (मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा)

Format for IT/eGovernance Project Detail

आई.टी./ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं की जानकारी

Project Name: परियोजना का नाम :	National E-Governance Programme in Agriculture
Department Name: विभाग का नाम	Deptt. of Farmer Welfare & Agriculture Development, M.P., Bhopal
Implementing Office Name क्रियान्वयनकर्ता कार्यालय का नाम	Directorate of Farmer Welfare & Agriculture Development, M.P., Bhopal
Project Head (Name, contact no. and email) परियोजना प्रमुख का नाम, फोन नं. एवं ईमेल	Dr. D. N. Sharma, Director Ph. 0755-2551336 Email : diragri@mp.gov.in
Contact/Incharge Person (Name, contact no. and email) संपर्क अधिकारी/कर्मचारी का नाम, फोन नं. एवं ईमेल	Mr. S. S. Thakur, Additional Director Ph. 0755-2551091 Email : dagit@mp.gov.in
Website Detail (if any) वेबसाईट की जानकारी/नाम (यदि हो तो)	www.mpkrishi.org
Date of Commencement प्रारंभ दिनांक	16 Feb. 2011
Project Overview in Brief/Bullet Points (Not more than 10 Points) परियोजना का बिन्दुवार संक्षिप्त परिचय (अधिकतम 10 बिन्दुओं में)	
1	Bringing farmer centricity & service orientation to the programs
2	Enhancing reach & impact of extension services
3	Improving access of farmers to information & services throughout crop-cycle
4	Building upon, enhancing & integrating the existing ICT initiatives.
5	Enhancing efficiency & effectiveness of programs through process redesign
6	More effective management of schemes
7	Promoting a common framework across states.
Attachment/enclosures detail for more information अधिक जानकारी हेतु संलग्न दस्तावेजों की जानकारी	

Project Services – परियोजना के तहत दी जाने वाली सेवायें					
Govt. to Citizen (G2C) आम नागरिकों को दी जाने वाली सेवायें		Govt. to Business (G2B) निजी व्यवसायियों को दी जाने वाली सेवायें		Govt. to Govt. (G2G) शासकीय कार्यालयों की आंतरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाली सेवायें *	
1	Information on Pesticides, Fertilisers and Seeds	1	License	1	MIS
2	Providing information on soil health	2	Rate and availability of Agriculture inputs	2	Scheme Monitoring
3	Information on crops, farm machinery, training and Good Agricultural Practices (GAPs)	3	Agriculture News etc.	3	Information Exchange
	Information on forecasted weather				
	Information on prices, arrivals, procurement points, and providing interaction platform				
	Electronic certification for exports & imports				
	Information on marketing infrastructure				
	Monitoring implementation / Evaluation of schemes & programs				
	Information on fishery inputs				
	Information on irrigation infrastructure				
	Drought Relief and Management				
	Livestock Management				
* जैसे एम.आई.एस. सिस्टम, ऑन लाईन रिपोर्टिंग एवं कम्यूनिकेशन सिस्टम, मानव संसाधन डेटाबेस, एकाउंटिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम)					
Application Software developed by: (Vendor Name) एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार करने वाली कम्पनी/संस्था का नाम		Project is just started and related information is yet to be finalised.			

Application platform एप्लीकेशन की टेक्नालॉजी / ऑपरेटिंग सिस्टम / आर्किटेक्चर	Project is just started and related information is yet to be finalised.
Project Cost (Hardware, Software, Training, etc.) परियोजना लागत (हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, प्रशिक्षण, आदि)	Estimated Rs. 2600.00 Lakhs. Component wise cost is yet to be finalised.
Source of Fund/project investment परियोजना का वित्तीय स्रोत	Govt. of India and State Govt. in proportion of 90:10
No. of Dedicated Project Staff: परियोजना तहत कार्यरत समर्पित स्टाफ की संख्या	Project is just started and related information is yet to be finalised.
Current Status (if project is not fully implemented) वर्तमान स्थिती (यदि परियोजना पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुई है तो)	Project is just started and related information is yet to be finalised.
Project Outcomes/benefit/ achievements (in bullet points) परियोजना से प्राप्त लाभ / परिवर्तन / उपलब्धियाँ (संक्षिप्त बिन्दुओं में)	Probable outcomes :- <ul style="list-style-type: none"> • Provide uniform face of government to agriculture sector stakeholders (especially farmers) • Service-level governed service delivery with built-in checks and balances to increase efficiency • Streamlined processes which make Government efficient and effective for service delivery • Integration of existing initiatives with new ones, thus creating sustainable balance of ICT • Improved monitoring of compliance, MIS and utilization of public money